



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (iii)

PART II—Section 3—Sub-section (iii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 103]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, नवम्बर 15, 2007/कार्तिक 24, 1929

No. 103]

NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 15, 2007/KARTIKA 24, 1929

भारत निर्वाचन आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 नवम्बर, 2007

आ.अ. 126(अ).—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 21 के उपबंधों द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निर्वाचन आयोग, एतद्वारा यह निदेश देता है कि समय-समय पर यथासंशोधित तारीख 18 सितम्बर, 2003 की अपनी अधिसूचना संख्या 434/म.प्र.-वि.स./2003 में निम्नलिखित और संशोधन किए जाएंगे अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना से संलग्न सारणी के स्तम्भ-2 में, 185-सांवेर (अ.जा.) के सामने विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी :—

सारणी

विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम व क्रम संख्या	रिटर्निंग आफिसर
(1)	(2)
185-सांवेर (अ.जा.)	अपर कलेक्टर (2), इंदौर
	[सं. 434/म.प्र.-वि.स./2003]
	आदेश से, बर्नार्ड जॉन, सचिव

ELECTION COMMISSION OF INDIA NOTIFICATION

New Delhi, the 15th November, 2007

O.N. 126(E).—In exercise of the powers conferred by provisions of Section 21 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission of India hereby directs that the following amendments shall be made in its Notification No. 434/MP-LA/2003, dated 18th September, 2003 as amended from time to time namely :—

In column 2 of the Table appended to the said Notification, the existing entry against 185—Sanwer (SC) Assembly Constituency shall be substituted with the following entry :—

TABLE

No. and Name of Assembly Constituency	Returning Officer
(1)	(2)
185—Sanwer (SC)	Additional Collector (2), Indore

[No. 434/MP-LA/2003]

By Order,

BERNARD JOHN, Secy.